

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक -06-07-2020

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

सुप्रभात बच्चों आज सम्प्रदान कारक एवं अपादान कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

सम्प्रदान कारक

सम्प्रदान कारक की परिभाषा

सम्प्रदान का अर्थ 'देना' होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर सम्प्रदान कारक होता है।

सम्प्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह **के लिए** या **को** हैं।

सम्प्रदान कारक के उदाहरण

नरेश मीना के लिए फल लाया है।

ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं, के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि किसी के लिए काम किया जा रहा है।

जब किसी के लिए काम किया जाता है तो तब वहां सम्प्रदान कारक होता है। अतः यह उदाहरण भी सम्प्रदान कारक के अंतर्गत आएगा।

विकास तुषार को किताबें देता है।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करता है। यह चिन्ह बताता है कि किसी ने किसी को कुछ दिया है।

यहाँ विकास ने तुषार को किताबें दी हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है।

भूखे के लिए रोटी लाओ।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं कि के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। यह चिन्ह हमें बताता है कि किसी के लिए काम किया जा रहा है।

एवं जब किसी के लिए काम किया जाता है तो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है। यहाँ पर भूखे के लिए रोटी लायी जा रही है। अतः यह उदाहरण सम्प्रदान कारक के अंतर्गत आएगा।

सम्प्रदान कारक के कुछ अन्य उदाहरण

- मेरे लिए खाना लेकर आओ।
- विकास ने तुषार को गाडी दी।
- मैं हिमालय को जा रहा हूँ।
- रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है।
- वह मेरे लिए चाय बना रहा है।

अपादान कारक

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी से किसी के अलग होने, दूर जाने, से तुलना या डरने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं ।

उदाहरण

- (1) बादल से बूँदें टपकीं।
- (2) नल से पानी बह रहा है, रोकिए!

यहाँ बूँदें अलग हुई बादल से और पानी अलग हुआ नल से। अतः 'बादल से' तथा ' नल से ' में अपादान कारक है।

गृहकार्य

- (1) सभी कारकों के नाम तथा उनके परसर्ग लिखिए –

(क) कर्ता ने
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)